

1. निम्न में से कौन-सा वित्तीय लेखांकन का कार्य नहीं है

- (1) लेनदेनों को लिखना
- (2) लाभ-हानि खाता बनाना
- (3) वित्तीय स्थिति जानना
- (4) बजट बनाना

2. पुस्तपालन है

- (1) व्यापारिक लेनदेनों को निश्चित पुस्तकों में लिखना
- (2) निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर लिखना
- (3) लेनदेनों का मौद्रिक मूल्य लिखना
- (4) उपरोक्त सभी

3. इकहरा लेखा प्रणाली में निम्न में से कौन नहीं रखा जाता

- (1) रोकड़ खाता
- (2) सम्पत्ति खाता
- (3) व्यक्तिगत खाता
- (4) बैंक खाता

4. इनमें से कौन-सा पुस्तपालन का उद्देश्य नहीं है

- (1) कर्मियों की संख्या जानना
- (2) लाभ-हानि ज्ञात करना

1. Which of the following is not the functions of Financial Accountancy

- (1) Recording Transaction
- (2) Making profit and loss account
- (3) To know the financial position
- (4) To prepare budget

2. Book Keeping is

- (1) To write business transactions in specific books
- (2) To record in the books of specific principles
- (3) To write monetary values of transaction
- (4) All of the above

3. Which of the following is not kept in single entry system

- (1) Cash Account
- (2) Asset Account
- (3) Personal Account
- (4) Bank Account

4. Which one is not the objective of Book keeping

- (1) To know the number of workers
- (2) To ascertain profit and loss

- (3) आर्थिक स्थिति ज्ञात करना
(4) नकद स्थिति ज्ञात करना
- 5. आहरण का अर्थ है**
- (1) व्यापार में धन का विनियोग
(2) कला
(3) व्यापार से धन का आहरण
(4) बैंक से धन का आहरण
- 6. पुस्तपालन एक है**
- (1) कला
(2) विज्ञान
(3) कला एवं विज्ञान दोनों
(4) न कला है न विज्ञान
- 7. पुस्तपालन उपयोगी है**
- (1) एक एकांकी व्यापार में
(2) एक फर्म में
(3) एक कम्पनी में
(4) व्यापार के सभी प्रारूपों में
- 8. व्यापारिक छूट किया जाता है**
- (1) डेबिट
(2) क्रेडिट
(3) उपरोक्त (1) एवं (2)
(4) कोई लेखा नहीं होता है

- (3) To ascertain financial position
(4) To ascertain cash position
- 5. Drawing means**
- (1) To invest money in business
(2) Art
(3) To withdraw money from business
(4) Withdraw money from bank
- 6. Book Keeping is**
- (1) An art
(2) A Science
(3) Art and Science Both
(4) Neither Art nor Science
- 7. Book Keeping is useful in**
- (1) A sole trade
(2) A firm
(3) A company
(4) All forms of Business
- 8. Trade discount is**
- (1) Debited
(2) Credited
(3) Both (1) and (2)
(4) No entry is formed

9. मृत स्टॉक में सम्मिलित है

- (1) सिर्फ भूमि
- (2) सिर्फ भवन
- (3) सिर्फ फर्नीचर
- (4) सभी स्थिर सम्पत्तियाँ

10. पूँजी + दायित्व =

- (1) सम्पत्ति
- (2) स्थाई सम्पत्ति
- (3) दीर्घकालीन ऋण
- (4) ऋण

11. नकद छूट दिया जाता है

- (1) अधिक मात्रा में बेचने के लिये
- (2) जल्दी वसूल करने के लिये
- (3) विक्रय बढ़ाने के लिये
- (4) मूल्य कम करने के लिये

12. लूकस पैसिऑली ने दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया था

- (1) 1494 में
- (2) 1594 में
- (3) 1694 में
- (4) 1794 में

13. दोहरा लेखा प्रणाली में मौलिक प्रविष्टि की बही को कहते हैं

- (1) रोजनामचा

9. **Dead Stock includes**

- (1) Only land
- (2) Only building
- (3) Only furniture
- (4) All fixed assets

10. **Capital + Liabilities =**

- (1) Asset
- (2) Fixed Asset
- (3) Long term Loan
- (4) Loan

11. **Cash discount is given**

- (1) To sell in huge quantity
- (2) To receive quickly
- (3) To increase sales
- (4) To reduce the price

12. **Lucas Pacioli invented double entry system in**

- (1) 1494
- (2) 1594
- (3) 1694
- (4) 1794

13. **In double entry system opening book of entry is known as**

- (1) Journal

- (2) सामान्य
- (3) स्टॉक रजिस्टर
- (4) पास बुक

14. कौन-सा गलत है

- (1) जो जाये उसे धनी
- (2) लाभ को ऋणी
- (3) पाने वाला ऋणी
- (4) लाभ को धनी

15. यदि कोई रु० 2000 का क्रय 10% व्यापारिक छूट पर करता है तो

- (1) क्रय खाता रु० 2000 से डेबिट किया जायेगा
- (2) क्रय खाता रु० 1800 से डेबिट किया जायेगा
- (3) छूट खाता रु० 200 से क्रेडिट किया जायेगा
- (4) क्रेता का खाता रु० 1800 से डेबिट किया जायेगा

16. पूँजी खाता आता है

- (1) पृथक व्यवसाय अवधारणा के अन्तर्गत
- (2) लेखांकन अवधि अवधारणा के अन्तर्गत
- (3) अर्जित अवधारणा के अन्तर्गत
- (4) वसूली अवधारणा के अन्तर्गत

17. नाममात्र के खाते किस अवधारणा पर रखे

- (2) General
- (3) Stock Register
- (4) Pass Book

14. Which one is incorrect

- (1) Credit what goes out
- (2) Debit the gains
- (3) Debit the receiver
- (4) Credit the profit

15. If one purchases goods of Rs. 2000 at a trade discount of 10% then

- (1) Purchase account will be debited with Rs. 2000
- (2) Purchase account will be debited with Rs. 1800
- (3) Discount account will be credited with Rs. 200
- (4) Purchaser's account will be debited with Rs. 1800

16. Capital account comes under

- (1) Separate business entity concept
- (2) Accounting period concept
- (3) Accrual concept
- (4) Realisation concept

17. Nominal account are kept as per which

जाते हैं

- (1) पृथक व्यवसाय
- (2) लेखांकन अवधि
- (3) पूँजी
- (4) द्विपक्ष

18. श्री 'ए' से नकद माल खरीदा तब

- (1) नकद खाता क्रेडिट किया जायेगा
- (2) ए का खाता क्रेडिट किया जायेगा
- (3) क्रय खाता क्रेडिट किया जायेगा
- (4) नकद खाता डेबिट किया जायेगा

19. क्रय वापसी की अवस्था में किस खाते को क्रेडिट किया जायेगा

- (1) क्रय
- (2) विक्रय
- (3) क्रय वापसी
- (4) विक्रेता

20. निजी उद्देश्य से मालिक द्वारा माल का प्रयोग को माना जायेगा

- (1) आहरण
- (2) विक्रय
- (3) क्रय वापसी
- (4) स्टॉक

21. मालिक को वेतन है

- (1) वेतन
- (2) मजदूरी
- (3) आहरण
- (4) व्यय

concept

- (1) Separate business entity
- (2) Accounting period
- (3) Capital
- (4) Dual aspect

18. **Goods purchased in cash from Mr. A then**

- (1) Cash a/c will be credited
- (2) A's a/c will be credited
- (3) Purchase a/c will be credited
- (4) Cash a/c will be debited

19. **In case of purchase return what a/c will be credited**

- (1) Purchase
- (2) Sales
- (3) Purchase Return
- (4) Sellers

20. **Goods used by owner for private purpose will be treated as**

- (1) Drawing
- (2) Sales
- (3) Purchase Return
- (4) Stock

21. **Salary paid to owner is**

- (1) Salary
- (2) Wages
- (3) Drawing
- (4) Expense

22. आग से स्टॉक के क्षति को

- (1) ट्रेडिंग खाता में क्रेडिट करेंगे
- (2) क्रय खाता से घटा देंगे
- (3) या तो (1) या (2)
- (4) दोनों (1) एवं (2)

23. लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो दोनों में कम है, होता है

- (1) स्टॉक मूल्यांकन
- (2) भूमि मूल्यांकन
- (3) देनदारों
- (4) सभी सम्पत्तियाँ

24. विपरीत लेखा किया जाता है

- (1) क्रय बही में
- (2) कैश बुक में
- (3) रोजनामचा में
- (4) पास बुक में

25. निर्गमित चेक को क्रेडिट किया जायेगा

- (1) निर्गमित करने के समय
- (2) 7 दिन बाद
- (3) भुगतान के बाद
- (4) समाधान के समय

26. एक चेक A से प्राप्त हुआ पर B के नाम कर दिया गया उसे लिखा जायेगा

- (1) कैश बुक के कैश कॉलम में
- (2) कैश बुक के बैंक कॉलम में
- (3) कैश बुक के विपरीत पक्ष में
- (4) उपरोक्त में एक भी नहीं

22. Loss of stock due to fire will be

- (1) Credited in trading a/c
- (2) Deducted from Purchase a/c
- (3) Either (1) or (2)
- (4) Both (1) and (2)

23. Cost price or market price whichever is less is for

- (1) Stock Valuation
- (2) Land Valuation
- (3) Debtors
- (4) All assets

24. Contra Entry is made in

- (1) Purchase Book
- (2) Cash Book
- (3) Journal
- (4) Pass Book

25. Cheque issued will be credited

- (1) At the time of issue
- (2) After 7 days
- (3) After payment
- (4) At the time of reconciliation

26. A cheque received from A and endorsed to B will be written in

- (1) Cash Column of Cash Book
- (2) Bank Column of Cash Book
- (3) Contra side of Cash Book
- (4) None of the above

27. कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट शेष को पास बुक से मिलान करते समय

- (1) निर्गमित चेक जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ, को जोड़ा जायेगा
- (2) निर्गमित चेक जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ, को घटाया जायेगा
- (3) जमा किया गया चेक जो वसूल नहीं हुआ, को जोड़ा जायेगा
- (4) रकम जो सीधे जमा करवा दिया गया, को घटाया जायेगा

28. विक्रय पुस्तक में हम लिखते हैं

- (1) सभी विक्रय
- (2) सिर्फ उधार विक्रय
- (3) सिर्फ नकद विक्रय
- (4) विक्रय एवं विक्रय वापसी

29. तलपट बनाया जाता है

- (1) किसी खाते का बाकी जानने के लिये
- (2) दोहरा लेखा की सम्पूर्णता जानने के लिये
- (3) खातों की अंकगणितीय शुद्धता जानने के लिये
- (4) उपरोक्त सभी

30. उचंत खाता दिखाया जाता है

- (1) व्यापार खाता में
- (2) लाभ-हानि खाता में
- (3) आर्थिक चिह्न में
- (4) कहीं भी नहीं दिखाया गया

31. बिल का भुनाना का अर्थ है

- (1) बैंक से भुनाना

27. While reconciling debit balance of bank column in cash book with pass book

- (1) Cheque issued but not paid will be added
- (2) Cheque issued but not paid will be deducted
- (3) Cheque deposited but not collected will be added
- (4) Amount directly deposited will be deducted

28. In Sales Book we write

- (1) All Sales
- (2) Only Credit Sales
- (3) Only cash sales
- (4) Sales and sales returns

29. Trial balance is prepared

- (1) To know the balance of any account
- (2) To know the completeness of double entry
- (3) To know the arithmetic accuracy of accounts
- (4) All of the above

30. Suspense account is shown in

- (1) Trading Account
- (2) Profit and loss account
- (3) Balance Sheet
- (4) not shown anywhere

31. Discounting of bill means

- (1) Discounting from bank

- (2) बाजार से भुनाना
(3) ग्राहक से भुनाना
(4) माल को छूट पर बेचना
- 32. बिल की वापसी का अर्थ है**
- (1) बिल वापस कर देना
(2) देय तिथि पर भुगतान
(3) देय तिथि के बाद भुगतान
(4) देय तिथि से पूर्व भुगतान
- 33. बिना प्रतिफल में बिल को कहते हैं**
- (1) साधारण बिल
(2) अनुग्रह बिल
(3) बिल का बेचान
(4) वसूली के लिये बिल
- 34. हास खाता को डेबिट किया जाता है**
- (1) व्यापार खाता में
(2) लाभ-हानि खाता में
(3) सम्पत्ति खाता में
(4) लाभ-हानि आयोजन खाता में
- 35. निम्न में से किस पर हास नहीं लगाया जाता है**
- (1) भूमि
(2) भवन
(3) मशीन
(4) फर्नीचर
- 36. लाभांश को दिखाया जाता है**
- (1) व्यापार खाता में

- (2) Discounting from market
(3) Discounting from customer
(4) Selling goods at discount

32. Retiring of bill means

- (1) To return the bill
(2) To pay on maturity
(3) To pay after maturity
(4) To pay before maturity

33. A bill drawn without consideration is known as

- (1) Ordinary bill
(2) Accommodation bill
(3) Endorsement of bill
(4) Bill for collection

34. Depreciation account is debited in

- (1) Trading account
(2) Profit and loss account
(3) Asset account
(4) Profit and loss appropriation account

35. Which one of the following is not subject of Depreciation

- (1) Land
(2) Building
(3) Machinery
(4) Furniture

36. Dividend is shown in

- (1) Trading account

- (2) लाभ-हानि खाता में
 (3) उत्पादन खाता में
 (4) लाभ-हानि आयोजन खाता में
- 37. बिक्री या वापसी पर भेजा गया माल को दिखाया जाता है**
- (1) विक्रय में
 (2) क्रय में
 (3) विक्रय वापसी में
 (4) अन्तिम स्टॉक में
- 38. निम्न में से किसे व्यापार खाता में दिखाया जाता है**
- (1) उधार क्रय
 (2) उधार विक्रय
 (3) स्टॉक
 (4) उपरोक्त सभी
- 39. चिह्न किसी एक विशेष की आर्थिक स्थिति को बताता है**
- (1) तिथि
 (2) माह
 (3) 6 माह
 (4) वर्ष
- 40. आर्थिक चिह्न को बनाया जाता है**
- (1) लागत अवधारणा
 (2) पृथक व्यापार अवधारणा
 (3) लेखांकन अवधि अवधारणा
 (4) वसूली अवधारणा

- (2) Profit (-) loss account
 (3) Manufacturing account
 (4) Profit and loss appropriation account

37. Goods supplied on sales or return is shown on

- (1) Sales
 (2) Purchase
 (3) Sales Return
 (4) Closing Stock

38. Which of the following is/are shown in trading account

- (1) Credit Purchase
 (2) Credit Sales
 (3) Stock
 (4) All of the above

39. Balance sheet shows financial position on a specific

- (1) Date
 (2) Month
 (3) Six Months
 (4) Year

40. Balance Sheet is prepared on the basis of

- (1) Cost Concept
 (2) Separate trade Concept
 (3) Accounting Period Concept
 (4) Realisation Concept

41. यदि एक व्यक्ति विक्रय पर 20% लाभ कमाना चाहता है तो यह होगा

- (1) लागत का 25%
- (2) लागत का 20%
- (3) लागत का 30%
- (4) लागत का 40%

42. आकस्मिक दायित्व को दिखाया जाता है

- (1) व्यापार खाता में
- (2) लाभ-हानि खाता में
- (3) आर्थिक चिह्न में
- (4) आर्थिक चिह्न के नीचे

43. भूमि पर कानूनी व्यय होता है

- (1) पूँजीगत व्यय
- (2) आयगत व्यय
- (3) स्थगित आयगत व्यय
- (4) उपरोक्त एक भी नहीं

44. आयगत व्यय जिसे एक वर्ष से अधिक समय में घटाया जाता है उसे कहते हैं

- (1) आयगत व्यय
- (2) पूँजीगत व्यय
- (3) स्थगित आयगत व्यय
- (4) व्यय नहीं माना जाता है

45. 3 वर्ष के लिये एक होर्डिंग पर रु० 1,00,000 व्यय हुआ यह है एक

- (1) आयगत व्यय
- (2) पूँजीगत व्यय
- (3) स्थगित आयगत व्यय
- (4) सम्पत्ति

41. If a person wants to earn 20% profit on sales it would be

- (1) 25% of cost
- (2) 20% of cost
- (3) 30% of cost
- (4) 40% of cost

42. Contingent liabilities are shown in

- (1) Trading Account
- (2) Profit and Loss Account
- (3) Balance Sheet
- (4) Below Balance Sheet

43. Legal expenses on Land is a

- (1) Capital expense
- (2) Revenue expense
- (3) Deferred revenue expense
- (4) None of the above

44. Revenue expense which is changed in more than one year is known as

- (1) Revenue Expense
- (2) Capital Expense
- (3) Deferred Revenue Expense
- (4) Not treated as Expense

45. An expenses of Rs. 1,00,000 on a hoarding for 3 years is a

- (1) Revenue expense
- (2) Capital Expense
- (3) Deferred revenue expense
- (4) Asset

46. यदि मैनेजर को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन दिया जाता है तो यह कमीशन पूर्व लाभ का कितना होगा

- (1) 10%
- (2) 11.11%
- (3) 15%
- (4) 20%

47. पूर्वदत्त व्यय होता है

- (1) व्यय
- (2) आय
- (3) सम्पत्ति
- (4) दायित्व

48. यदि बीजक प्राप्त हो जाये पर माल नहीं, तो

- (1) इसे क्रय माना जायेगा
- (2) इसे स्टॉक माना जायेगा
- (3) उचन्त माना जायेगा
- (4) कोई भी उपचार नहीं होता है

49. देनदारों को छूट के लिये प्रावधान बनाया जाता है

- (1) कुल देनदारों पर
- (2) अशोध्य ऋण पर
- (3) संदिग्ध ऋण पर
- (4) उपरोक्त (1) - (2) - (3)

50. बिके माल की लागत =

- (1) क्रय लागत
- (2) आरम्भिक स्टॉक लागत
- (3) अन्तिम स्टॉक लागत
- (4) उपरोक्त (1) - (2) - (3)

46. If manager is paid Commission of 10% on net profit this will be how much on profit before commission

- (1) 10%
- (2) 11.11%
- (3) 15%
- (4) 20%

47. Prepaid expense is

- (1) Expense
- (2) Income
- (3) Asset
- (4) Liability

48. If invoice is received but goods not, then

- (1) It is treated as purchase
- (2) It is treated as stock
- (3) It is treated as suspense
- (4) It is not treated at all

49. Provision for discount on Debtors is created on

- (1) Total Debtors
- (2) Bad Debts
- (3) Doubtful debt
- (4) Above (1) - (2) - (3)

50. Cost of Goods sold =

- (1) Cost of Purchase
- (2) Cost of Opening Stock
- (3) Cost of Closing Stock
- (4) Above (1) - (2) - (3)

51. वित्तीय खातों के विश्लेषण का उद्देश्य है

- (1) आर्थिक शक्ति ज्ञात करना
- (2) आर्थिक कमजोरी ज्ञात करना
- (3) (1) एवं (2) के कारणों को ज्ञात करना
- (4) उपरोक्त सभी

52. कौन-सा वित्तीय विश्लेषण का कार्य नहीं है

- (1) प्रवृत्ति अध्ययन
- (2) बजट बनाना
- (3) पुनः वर्गीकरण
- (4) अंकों की सन्निकटीकरण

53. निम्न में से कौन-सा वित्तीय विश्लेषण की विधि है

- (1) रोकड़ प्रवाह विवरण
- (2) सीमा स्तर विश्लेषण
- (3) विचरणांश विश्लेषण
- (4) उपरोक्त सभी

54. $\frac{\text{विक्रय लागत} + \text{संचालन व्यय}}{\text{विक्रय}} \times 100 =$

- (1) लाभ अनुपात
- (2) संचालन अनुपात
- (3) विक्रय अनुपात
- (4) भुगतान अनुपात

55. भुगतान अनुपात का सम्बन्ध है

- (1) लाभांश से
- (2) नकद से
- (3) व्यय से
- (4) वेतन से

51. Purpose of interpretation of account is

- (1) To ascertain financial strength
- (2) To ascertain financial weakness
- (3) To identify the causes of (1) and (2)
- (4) All of the above

52. Which one is not a function of Interpretation of financial Statement

- (1) Trend Study
- (2) Budgeting
- (3) Reclassification
- (4) Approximation of data

53. Which one of the following is a technique of Analysis of financial statement

- (1) Cash flow statement
- (2) Marginal Cost Analysis
- (3) Variance analysis
- (4) All of the above

54. $\frac{\text{Cost of Sales} + \text{Operating Exps.}}{\text{Sales}} \times 100 =$

- (1) Profit Ratio
- (2) Operating Ratio
- (3) Sales Ratio
- (4) Payout Ratio

55. Payout ratio related to

- (1) Dividend
- (2) Cash
- (3) Expenses
- (4) Salary

56. $\frac{\text{प्रति अंश बाजार मूल्य}}{\text{प्रति अंश आय}} =$

- (1) बाजार मूल्य अनुपात
- (2) मूल्य अर्जन अनुपात
- (3) अंश आय अनुपात
- (4) बाजार आय अनुपात

57. स्कंध आवर्त अनुपात में हम लेते हैं

- (1) बिके माल की लागत
- (2) कुल लागत
- (3) बिके माल का मूल्य
- (4) कुल विक्रय

58. सम्पत्ति आवर्त अनुपात में हम देखते हैं

- (1) कितनी सम्पत्ति का विक्रय होना है
- (2) सम्पत्ति एवं शुद्ध विक्रय का सम्बन्ध
- (3) सम्पत्ति का विक्रय मूल्य
- (4) सम्पत्ति का बाजार मूल्य

59. तरल अनुपात = $\frac{?}{\text{चालू दायित्व}}$

- (1) चालू सम्पत्ति
- (2) तरल सम्पत्ति
- (3) कुल सम्पत्ति
- (4) सिर्फ नकद

60. प्रयुक्त पूँजी =

- (1) समता
- (2) दीर्घकालीन पूँजी

56. $\frac{\text{Market Price per share}}{\text{Earning per share}} =$

- (1) Market price ratio
- (2) Price earning ratio
- (3) Share earning ratio
- (4) Market earning ratio

57. For Inventory Turnover ratio we consider

- (1) Cost of Goods Sold
- (2) Total Cost
- (3) Value of Goods sold
- (4) Total Sales

58. In asset turnover ratio we see

- (1) How much asset to sell
- (2) The relationship with asset and net sale
- (3) Sale price of asset
- (4) Market price of asset

59. Quick ratio = $\frac{?}{\text{Current Liabilities}}$

- (1) Current Asset
- (2) Liquid Asset
- (3) Total Asset
- (4) Only Cash

60. Capital employed =

- (1) Equity
- (2) Long term capital

(3) (1) + (2)

(4) (1) – (2)

61. पूँजी संरचना अनुपात =

(1) समता : पूर्वाधिकारी

(2) समता : रिजर्व

(3) समता : ऋण

(4) दीर्घकालीन ऋण : अल्पकालीन ऋण

62. कौन-सा कोष प्रवाह में सम्मिलित नहीं है

(1) चालू एवं स्थाई सम्पत्ति में लेन-देन

(2) चालू दायित्व एवं स्थाई सम्पत्ति में लेन-देन

(3) चालू सम्पत्ति एवं चालू दायित्व में लेन-देन

(4) माल क्रय एवं विक्रय में लेन-देन

63. निम्न में कौन-सा कोष का प्रयोग नहीं है

(1) स्थाई सम्पत्ति में वृद्धि

(2) दायित्व में कमी

(3) कार्यशील पूँजी में कमी

(4) कार्यशील पूँजी में वृद्धि

64. संचालन से कोष ज्ञात करने के लिये शुद्ध लाभ से किसको घटाया जाता है

(1) पूँजीगत लाभ

(2) ख्याति में कमी

(3) (1) + (2)

(4) (1) – (2)

61. Capital structure ratio =

(1) Equity : Preference

(2) Equity : Reserve

(3) Equity : Debt

(4) Long term debt : Short term debt

62. Which one is not included in fund flow

(1) Transaction between Current and Fixed Assets

(2) Transaction between Current Liability and Fixed Assets

(3) Transaction between Current Assets and Current Liabilities

(4) Transaction between Purchase and Sales of Goods

63. Which one of the following is not uses of fund

(1) Increase in Fixed Asset

(2) Decrease in Liability

(3) Decrease in Working Capital

(4) Increase in Working Capital

64. To calculate fund from operation which one is deducted from net profit

(1) Capital Gains

(2) Reduce in Goodwill

- (3) सम्पत्ति में वृद्धि
(4) लाभांश भुगतान
65. कोष प्रवाह विवरण में चल सम्पत्तियों पर किये प्रावधान को दिखाया जाता है
- (1) चालू दायित्व
(2) चालू सम्पत्तियों पर समायोजन
(3) या तो (1) या (2)
(4) उपरोक्त एक भी नहीं
66. शुद्ध कार्यशील पूँजी =
- (1) सभी चल सम्पत्ति
(2) सभी चल दायित्व
(3) (1) – (2)
(4) (1) + (2)
67. हास खाते का आरम्भिक शेष रु० 50,000, अन्तिम शेष रु० 60,000, बिके सम्पत्ति पर कुल जमा हास रु० 10,000, इस वर्ष कितना हास चार्ज किया गया है
- (1) रु० 10,000
(2) रु० 20,000
(3) रु० 30,000
(4) रु० 40,000
68. एक मशीन का लागत मूल्य रु० 1,00,000, है जमा हास रु० 45,000, विक्रय मूल्य रु० 40,000 कितना लाभ या हानि हुआ
- (1) रु० 15,000 का लाभ
(2) रु० 15,000 का हानि
(3) रु० 60,000 का लाभ

- (3) Increase in Asset
(4) Dividend paid

65. Provisions on moveable asset are shown in fund flow statement as
- (1) Current Liability
(2) Adjustment from current assets
(3) Either (1) or (2)
(4) None of the above
66. Net working capital =
- (1) All current asset
(2) All current liability
(3) (1) – (2)
(4) (1) + (2)
67. Opening balance of Depreciation a/c Rs. 50,000, closing balance is Rs. 60,000, Accumulated depreciation on an asset sold Rs. 10,000. How much depreciation is charged during the year
- (1) Rs. 10,000
(2) Rs. 20,000
(3) Rs. 30,000
(4) Rs. 40,000
68. Cost price of a machine Rs. 1,00,000, accumulated depreciation Rs. 45,000, sale price Rs. 40,000. How much is the loss and profit
- (1) Gain of Rs. 15,000
(2) Loss of Rs. 15,000
(3) Gain of Rs. 60,000

(4) रु० 60,000 का हानि

69. निम्नलिखित में से कौन-सा गैर नकद व्यय है

(1) भुगतान किया गया लाभांश

(2) हास

(3) उधार क्रय

(4) अदत्त व्यय

70. निम्न में कौन-सा गैर संचालन व्यय है

(1) लाभांश

(2) ऋण पर ब्याज

(3) पूँजीगत हानि

(4) उपरोक्त सभी

71. निम्न में से कौन-सा चालू वर्ष में नकद भुगतान किया जाता है

(1) पिछले वर्ष लाभांश का प्रावधान

(2) चालू वर्ष में लाभांश का प्रावधान

(3) हास प्रावधान

(4) पूँजीगत हानि

72. निम्न में कौन-सा नकद प्रवाह विवरण में नहीं दिखाया जाता है

(1) संचालन गतिविधि

(2) बैंकिंग गतिविधि

(4) Loss of Rs. 60,000

69. Which one of the following is a non cash expense

(1) Dividend paid

(2) Depreciation

(3) Credit Purchase

(4) Outstanding expense

70. Which one of the following is non operating expenses

(1) Dividend

(2) Interest on Loan

(3) Capital Loss

(4) All of the above

71. Which of the following is paid in cash with current year

(1) Dividend provided in previous year

(2) Dividend provided in current year

(3) Depreciation provided

(4) Capital loss

72. Which one of the following is not shown in cash flow statement

(1) Operating Activity

(2) Banking Activity

(3) वित्तीय गतिविधि

(4) विनियोग गतिविधि

73. संचालन से नकद में सम्मिलित किया जाता है

(1) जो कार्यशील पूँजी को प्रभावित करे

(2) जो स्थाई सम्पत्तियों को प्रभावित करे

(3) जो गैर नकद व्यय को प्रभावित करे

(4) जो पूँजी को प्रभावित करे

74. किसी लाभ-हानि खाते में दिखाये गये व्यय के कारण से हुए वास्तविक नकद प्रवाह ज्ञात करने के लिए

(1) प्रारम्भिक पूर्वदत्त को घटाया जायेगा

(2) अन्तिम पूर्वदत्त को जोड़ा जायेगा

(3) दोनों (1) एवं (2) को किया जायेगा

(4) उपरोक्त में से किसी को नहीं किया जायेगा

75. कुल विक्रय + आरम्भिक देनदारी (-) अन्तिम देनदारी =

(1) नकद विक्रय

(2) कुल विक्रय

(3) उधार विक्रय

(4) अन्तिम रहतिया

76. एकल व्यापार क्या है

(1) एक व्यक्ति लाभ कमाता है

(3) Financing Activity

(4) Investing Activity

73. Cash from operation includes

(1) Which effects working capital

(2) Which effects fixed capital

(3) Which effects non cash expense

(4) Which effects capital

74. To ascertain the actual cash outflow due to an expense shown in profit and loss account

(1) Opening prepared will be deducted

(2) Closing prepared will be added

(3) Both (1) and (2) will be done

(4) None above will be done

75. Total sales + Opening Debtor (-) closing Debtor =

(1) Cash Sales

(2) Total Sales

(3) Credit Sales

(4) Closing Stock

76. What is sole trade

(1) One person earns profit

- (2) एक व्यक्ति निर्णय लेता है
- (3) एक व्यक्ति निर्देशन देता है
- (4) एक व्यक्ति प्रबन्ध करता है

77. कौन-सा व्यापार का स्वरूप सर्वाधिक मात्रा में होता है

- (1) कम्पनी
- (2) फर्म
- (3) सहकारी
- (4) एकल व्यापार

78. किस प्रारूप में संस्था के पंजीकरण हेतु कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं है

- (1) एकल व्यापार
- (2) फर्म
- (3) कम्पनी
- (4) सहकारी

79. एक फर्म का पंजीयन

- (1) आवश्यक है
- (2) ऐच्छिक है
- (3) उपयोगी है
- (4) एक भी नहीं

80. एक साझेदार अपना हित हस्तान्तरण कर सकता है

- (1) अपने आप
- (2) रजिस्ट्रार के सहमति पर
- (3) दूसरे साझेदारों की सहमति पर
- (4) बैंक की सहमति पर

- (2) One person takes decision
- (3) One person directs
- (4) One person manages

77. Which form of the organization is maximum in number

- (1) Company
- (2) Firm
- (3) Cooperative
- (4) Sole Trade

78. For which form of organization there is no legal provision for registration

- (1) Sole trade
- (2) Firm
- (3) Company
- (4) Cooperative

79. Registration of a firm is

- (1) Mandatory
- (2) Voluntary
- (3) Useful
- (4) None of the above

80. A Partner can transfer his interest

- (1) On his own
- (2) On the approval of registrar
- (3) With the consent of other partners
- (4) On the approval of Bank

81. निम्न में किसे सदैव एक विशिष्ट वैधानिक अस्तित्व माना जाता है

- (1) एकल व्यापार
- (2) फर्म
- (3) संयुक्त हिन्दू परिवार
- (4) कम्पनी

82. एक फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या कौन निर्धारित करता है

- (1) साझेदारी संलेख
- (2) साझेदारी अधिनियम
- (3) साझेदार
- (4) रजिस्ट्रार

83. बैंकिंग फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है

- (1) 10
- (2) 20
- (3) 30
- (4) 40

84. एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी में न्यूनतम सदस्यों की क्या संख्या होती है

- (1) 5
- (2) 7
- (3) 10
- (4) असीमित

85. एक सार्वजनिक कम्पनी में सदस्यों का दायित्व होता है

- (1) सीमित

81. Which of the following is always treated as special legal existence

- (1) Sole Trade
- (2) Firm
- (3) Joint Hindu Family
- (4) Company

82. Who decides maximum number of partners in a firm

- (1) Partnership Deed
- (2) Partnership Act
- (3) Partners
- (4) Registrar

83. What is the maximum number of Partners in a Banking firm

- (1) 10
- (2) 20
- (3) 30
- (4) 40

84. What is the minimum number of members in a public limited company

- (1) 5
- (2) 7
- (3) 10
- (4) Unlimited

85. The liability of members in a limited company is

- (1) limited

- (2) असीमित
- (3) सदस्यों की इच्छा पर
- (4) सीमित एवं असीमित दोनों
86. प्रलेख जिसमें कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध सम्बन्धी नियम दिये होते हैं उसे कहते हैं
- (1) सीमा नियम
- (2) प्रविवरण पत्र
- (3) अन्तर्नियम
- (4) समामेलन प्रमाण पत्र
87. एक निजी कम्पनी में निर्देशकों की न्यूनतम संख्या होती है
- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4
88. कौन-सा प्रलेख कम्पनी के अधिकारों की सीमा बताता है
- (1) अन्तर्नियम
- (2) प्रविवरण पत्र
- (3) सीमानियम
- (4) उपरोक्त सभी
89. एक पूर्णकालिक कम्पनी संचालक की अधिकतम पारिश्रमिक कितनी होती है
- (1) 5%
- (2) 11%
- (3) 15%
- (4) कोई सीमा नहीं

- (2) unlimited
- (3) At the desire of members
- (4) Both Limited and Unlimited
86. Document which contains rules for indoor management of company is known as
- (1) Memorandum
- (2) Prospectus
- (3) Articles
- (4) Certificate of Incorporation
87. Minimum number of directors in a private company is
- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4
88. Which document states the limits of powers of a company
- (1) Articles
- (2) Prospectus
- (3) Memorandum
- (4) All of the above
89. How much is the maximum remuneration of a full time company director
- (1) 5%
- (2) 11%
- (3) 15%
- (4) No limit

90. वैधानिक सभा आवश्यक है

- (1) निजी कम्पनी के लिये
- (2) सार्वजनिक कम्पनी के लिये
- (3) सभी कम्पनियों के लिये
- (4) किसी के लिये नहीं

91. दो वार्षिक व्यापक सभा के बीच में अन्तर अधिक नहीं होना चाहिये

- (1) 12 महीनों से
- (2) 15 महीनों से
- (3) 20 महीनों से
- (4) कोई सीमा नहीं

92. अधिकार के परे किससे सम्बन्धित है

- (1) नाम वाक्यांश
- (2) उद्देश्य वाक्यांश
- (3) पूँजी वाक्यांश
- (4) दायित्व वाक्यांश

93. क्या निदेशक के लिये योग्यता अंश धारण करना आवश्यक है

- (1) यदि सीमानियम में दिया है
- (2) यदि अन्तर्नियम में दिया है
- (3) यदि प्रविवरण में दिया है
- (4) यदि मंडल निर्णय लें

90. Statutory meeting is compulsory for a

- (1) Private limited company
- (2) Public limited company
- (3) For all companies
- (4) For none

91. Gap between two Annual General Meeting should not be more than

- (1) 12 Months
- (2) 15 Months
- (3) 20 Months
- (4) No Limit

92. Doctrine of ultra vires relates to

- (1) Name Clause
- (2) Object Clause
- (3) Capital Clause
- (4) Liability Clause

93. Is it mandating to hold qualification shares by a director

- (1) If provided in Memorandum
- (2) If provided in Article
- (3) If provided in Prospectus
- (4) If Board decides

94. बिना प्रतिफल के निर्गमित अंश को कहते हैं

- (1) समता अंश
- (2) पूर्वाधिकार अंश
- (3) बोनस अंश
- (4) ऋणपत्र

95. एक सरकारी कम्पनी में सरकार कम से कम कितनी अंश धारण करती है

- (1) 25%
- (2) 50%
- (3) 51%
- (4) 100%

96. कम से कम एक मंडल सभा आहूत करना आवश्यक है

- (1) प्रत्येक माह
- (2) प्रत्येक तिमाही
- (3) छः माह में
- (4) एक वर्ष में

97. एक अवयस्क को फर्म में सम्मिलित किया जाता है

- (1) लाभ एवं हानि में
- (2) सिर्फ लाभ में
- (3) सिर्फ हानि में
- (4) न लाभ में न ही हानि में

94. Share issued without consideration is known as

- (1) Equity Share
- (2) Preference Share
- (3) Bonus Share
- (4) Debenture

95. How much minimum shares of the Government holds in case of Government Company

- (1) 25%
- (2) 50%
- (3) 51%
- (4) 100%

96. At least one board meeting must be convened in

- (1) Every Month
- (2) Every Quarter
- (3) Six Month
- (4) One Year

97. A minor is admitted to a firm

- (1) in profit and loss
- (2) Only in profit
- (3) Only in loss
- (4) Neither in profit nor loss

98. RBI है

- (1) सरकारी विभाग
- (2) सरकारी कम्पनी
- (3) वैधानिक निगम
- (4) निजी कम्पनी

99. IFCI की स्थापना हुई

- (1) 1948 में
- (2) 1956 में
- (3) 1964 में
- (4) 1980 में

100. एक निजी कम्पनी जनता में निर्गमित कर सकती है

- (1) सिर्फ समता अंश
- (2) सिर्फ पूर्वाधिकारी अंश
- (3) उपरोक्त दोनों
- (4) उपरोक्त एक भी नहीं

101. अंश पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र कहाँ दिया जाता है

- (1) केन्द्रीय सरकार
- (2) कम्पनी रजिस्ट्रार
- (3) स्टॉक एक्सचेंज
- (4) उपरोक्त सभी

102. SEBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है

- (1) दिल्ली
- (2) मुम्बई

98. RBI is a

- (1) Government Department
- (2) Government Company
- (3) Statutory Corporation
- (4) Private Company

99. IFCI was established in

- (1) 1948
- (2) 1956
- (3) 1964
- (4) 1980

100. A Private Company can issue to public

- (1) Only equity shares
- (2) Only preference shares
- (3) Both above
- (4) None above

101. Where the application is given for registration of shares

- (1) Central Government
- (2) Registrar of Companies
- (3) Stock Exchange
- (4) All of the above

102. Where is head office of SEBI situated

- (1) Delhi
- (2) Mumbai

- (3) कोलकाता
- (4) चेन्नई

103. व्यावसायिक संयोजन किया जाता है

- (1) प्रतिस्पर्धा कम करने के लिये
- (2) संयुक्त साहस के लिये
- (3) कम्पनी स्थापना के लिये
- (4) फर्म स्थापना के लिये

104. एक अकुशल इकाई को कुशल इकाई के साथ संयोजित करने को कहते हैं

- (1) संयोजन
- (2) विवेकीकरण
- (3) संविलयन
- (4) एकीकरण

105. विवेकीकरण का आवश्यक तत्त्व नहीं है

- (1) संयोजन
- (2) प्रमाणीकरण
- (3) सरलीकरण
- (4) अल्पीकरण

106. प्रबन्ध एक

- (1) अनवरत प्रक्रिया है
- (2) गतिशील प्रक्रिया है
- (3) सामाजिक प्रक्रिया है
- (4) उपरोक्त सभी प्रक्रियायें हैं

107. प्रबन्ध है

- (3) Kolkata
- (4) Chennai

103. Business combination is done for

- (1) To reduce competition
- (2) Joint Venture
- (3) Forming Company
- (4) Forming Firms

104. To combine an inefficient organization with efficient is known as

- (1) Combination
- (2) Rationalisation
- (3) Absorption
- (4) Amalgamation

105. Not an essential feature of rationalisation

- (1) Combination
- (2) Standardization
- (3) Simplification
- (4) Reduction

106. Management is a

- (1) Continuous process
- (2) Dynamic process
- (3) Social process
- (4) All aboves process

107. Management is

- (1) विज्ञान
- (2) कला
- (3) विज्ञान एवं कला दोनों हैं
- (4) उपरोक्त एक भी नहीं

108. कौन-सा बाह्य वातावरण नहीं है

- (1) आर्थिक
- (2) उत्पाद
- (3) सामाजिक
- (4) सांस्कृतिक

109. किसे निर्गत माना जाता है

- (1) उत्पाद एवं सेवा
- (2) लाभ
- (3) सन्तुष्टि
- (4) उपरोक्त सभी

110. फर्म एक अल्पकालीन उद्देश्य है

- (1) लाभ को अधिकतम करना
- (2) सम्पत्ति को अधिकतम करना
- (3) विक्रय को अधिकतम करना
- (4) लाभांश को अधिकतम करना

111. वित्त की आधुनिक विचारधारा है

- (1) वित्तीय रिकार्ड को रखना
- (2) बैंक से लेन-देन
- (3) साधनों का अनुकूलतम प्रयोग
- (4) अंश बाजार में लेन-देन करना

- (1) A Science
- (2) An Art
- (3) Both Science and Art
- (4) None of the above

108. Which one is not macro environment

- (1) Economic
- (2) Product
- (3) Social
- (4) Cultural

109. Which one is treated as output

- (1) Product and Service
- (2) Profit
- (3) Satisfaction
- (4) All of the above

110. The Short term objective of firms is

- (1) To maximise profit
- (2) To maximise wealth
- (3) To maximise sales
- (4) To maximise dividend

111. The modern approach of finance is

- (1) Only keeping of records
- (2) Bank Transaction
- (3) Optimum use of resources
- (4) Dealing in share market

112. दीर्घकालीन वित्तीय निर्णय जाना जाता है

- (1) दीर्घकालीन वित्त निर्णय
- (2) पूँजी निर्णय
- (3) बजट निर्णय
- (4) पूँजी बजटिंग निर्णय

113. समता है एक

- (1) अल्पकालीन पूँजी साधन
- (2) दीर्घकालीन पूँजी साधन
- (3) मध्यकालीन पूँजी साधन
- (4) उपरोक्त सभी

114. रिजर्व होता है

- (1) स्वामीगत पूँजी
- (2) स्वामिगत कोष
- (3) उपरोक्त दोनों
- (4) पूँजी नहीं है

115. व्यापारिक लेनदारी है

- (1) अल्पकालीन साधन
- (2) मध्यकालीन साधन
- (3) दीर्घकालीन साधन
- (4) साधन नहीं होता है

116. अतिपूँजीकरण का अर्थ है

- (1) कम्पनी के पास अधिक पूँजी है
- (2) कम्पनी के पास अधिक कोष है
- (3) कम्पनी उचित दर पर लाभांश नहीं दे पाती

112. Long term financial decision is known as

- (1) Longterm Finance Decision
- (2) Capital Decision
- (3) Budgeting Decision
- (4) Capital Budgeting Decision

113. Equity is a

- (1) Short term capital resource
- (2) Long term capital resource
- (3) Medium term capital resource
- (4) All of the above

114. Reserve is a

- (1) Owned capital
- (2) Proprietary reserve
- (3) Both above
- (4) Not a capital

115. Trade creditor is a

- (1) Short term source
- (2) Medium term source
- (3) Long term source
- (4) Not a source

116. Over capitalization means

- (1) Company has excess capital
- (2) Company has excess reserve
- (3) Company fails to pay reasonable

है

(4) कम्पनी पूँजी का प्रयोग नहीं कर पाती है

117. पूँजी का वास्तविक मूल्य > पूँजी का पुस्तकीय मूल्य का अर्थ है

- (1) अल्प पूँजीकरण
- (2) अति पूँजीकरण
- (3) अनुकूल पूँजीकरण
- (4) वास्तविक पूँजीकरण

118. $\frac{\text{वार्षिक आय}}{\text{बाजार में पूँजीकरण \% पर}} =$

- (1) पूर्ण पूँजीकरण
- (2) अतिपूँजीकरण
- (3) अल्पपूँजीकरण
- (4) पूँजी में वृद्धि

119. कौन-सा आन्तरिक तत्त्व है, जो पूँजी ढँचा निर्धारित करता है

- (1) विनियोजकों का मनोविज्ञान
- (2) निर्गमन पर व्यय
- (3) वर्तमान विधान एवं नियम
- (4) जोखिम

120. EBIT का अर्थ

- (1) आयकर के पूर्व आय
- (2) आयकर एवं ब्याज के पूर्व आय
- (3) आय, आशोध्य ऋण एवं आयकर
- (4) ब्याज एवं व्यापार व्यय के पूर्व आय

dividend

(4) Company fails to use capital

117. **Real value of capital > Book value of capital means**

- (1) Under Capitalization
- (2) Over Capitalization
- (3) Optimum Capitalization
- (4) Real Capitalization

118. $\frac{\text{Annual income}}{\% \text{ rate of Capitalization in the market}} =$

- (1) Total Capitalization
- (2) Over Capitalization
- (3) Under Capitalization
- (4) Increase in Capitalization

119. **Which one is the internal factor that determines capital structure**

- (1) Psychology of investor
- (2) Expenses of issue
- (3) Current law and regulation
- (4) Risk

120. **EBIT means**

- (1) Earning before Income Tax
- (2) Earning before Income Tax and Interest
- (3) Earning, Bad debt and Income Tax
- (4) Earning before interest and Trade Expenses

121. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में लाभ होता है

- (1) समता अंशधारियों को
- (2) पूर्वाधिकारी अंशधारियों को
- (3) सभी प्रकार के अंशधारियों को
- (4) अंशधारियों एवं ऋणपत्रधारियों को

122.
$$\frac{\text{समता अंश}}{\text{पूर्वाधिकारी पूँजी + ऋण पूँजी}} =$$

- (1) पूँजी अनुपात
- (2) ऋण अनुपात
- (3) दन्ति अनुपात
- (4) दायित्व अनुपात

123. तरलता का अर्थ है

- (1) पानी
- (2) पेय
- (3) ऋण भुगतान
- (4) उपरोक्त सभी

124. वर्तमान मूल्य की गणना करते हैं

- (1) आयगत व्यय के लिये
- (2) पूँजीगत के लिये
- (3) (1) + (2)
- (4) (2) – (1)

125. लाभांश के MM मॉडल में

- (1) अंश मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता
- (2) लाभांश में साथ अंश मूल्य बढ़ते हैं

121. In trading on equity advantage belongs to

- (1) Equity Shareholders
- (2) Preference shareholders
- (3) All types of shareholders
- (4) Shareholders and debenture holders

122.
$$\frac{\text{Equity Capital}}{\text{Preference capital + Borrowed capital}} =$$

- (1) Capital ratio
- (2) Loan Ratio
- (3) Capital Gear Ratio
- (4) Liability Ratio

123. Liquidity means

- (1) Water
- (2) Drinks
- (3) Meeting Debts
- (4) All of the above

124. Present value is calculated

- (1) For revenue expenses
- (2) For capital expenditures
- (3) (1) + (2)
- (4) (2) – (1)

125. In MM model of dividend

- (1) There will be no effect in share price
- (2) Share prices increase with dividend

- (3) लाभांश बढ़ने से अंश मूल्य घटते हैं
- (4) जब अंश मूल्य बढ़ते हैं तब लाभांश अपने आप बढ़ जाते हैं

126. लाभांश का वाल्टर मॉडल है

- (1) M. M. मॉडल की तरह है
- (2) M. M. मॉडल का विस्तार है
- (3) M. M. मॉडल का विपरीत है
- (4) M. M. मॉडल पर सुधार है

127. बोनस अंश निर्गमित किया जा सकता है

- (1) अंश पूँजी खाता द्वारा
- (2) अंश प्रीमियम खाता द्वारा
- (3) अंश आवेदन खाता द्वारा
- (4) ऋणपत्र खाता द्वारा

128. बोनस अंश जारी करने के बाद अवशिष्ट कोष होना चाहिये

- (1) बढ़ी प्रदत्त पूँजी का कम से कम 40%
- (2) पुराने प्रदत्त पूँजी के बराबर
- (3) औसत प्रदत्त पूँजी का 40% के बराबर
- (4) औसत प्रदत्त पूँजी के बराबर

129. शुद्ध कार्यशील पूँजी =

- (3) Share prices decrease due to increase in dividend
- (4) When share prices increase dividend automatically increase

126. Walter model of dividend is

- (1) Same as M. M. Model
- (2) Extension of M. M. Model
- (3) Opposite of M. M. Model
- (4) Improvement over M. M. Model

127. Bonus shares can be issued out of

- (1) Share Capital Account
- (2) Share Premium Account
- (3) Share Application Account
- (4) Debentures Account

128. After issue of Bonus Shares residual reserve should be

- (1) At least 40% of increased paid up capital
- (2) Equal to previous paid up capital
- (3) 40% of average paid up capital
- (4) Equal average paid up capital

129. Net Working Capital =

(1) चालू सम्पत्तियों का योग

(2) चालू दायित्वों का योग

(3) (1) – (2)

(4) (1) + (2)

130. किसे कार्यशील पूँजी के लिये नहीं लिया जाता है

(1) कोष

(2) प्रावधान

(3) व्यापारिक लेनदारी

(4) देय बिल

131. नियमित कार्यशील पूँजी होती है

(1) परिवर्तनशील

(2) मौसमी

(3) स्थाई

(4) उपरोक्त एक भी नहीं

132. परिवर्तनशील कार्यशील पूँजी के लिये किस साधन का प्रयोग होता है

(1) दीर्घकालीन साधन

(2) पूँजीगत साधन

(3) चालू साधन

(4) कोई भी साधन

133. हास होता है एक

(1) दीर्घकालीन वित्त का साधन

(2) मध्यकालीन वित्त का साधन

(1) Total of current Assets

(2) Total of Current Liabilities

(3) (1) – (2)

(4) (1) + (2)

130. Which one of not considered for working capital

(1) Reserve

(2) Provision

(3) Trade Creditors

(4) Bill Payables

131. Regular working capital is

(1) Variable

(2) Seasonal

(3) Permanent

(4) None of the above

132. Which source is used for variable working capital

(1) Long term Source

(2) Capital Source

(3) Current Source

(4) Any Source

133. Depreciation is a

(1) Long term source of finance

(2) Medium source of finance

- (3) अल्पकालीन वित्त का साधन
(4) वित्त का साधन नहीं होता है
- 134. कौन-सा कार्यशील पूँजी का साधन नहीं है**
- (1) देय बिल
(2) जन निक्षेप
(3) अधिविकर्ष
(4) हुन्डी
- 135. EOQ का प्रयोग होता है**
- (1) इन्वेन्ट्री प्रबन्ध में
(2) प्राप्य बिल प्रबन्ध में
(3) नकद प्रबन्ध में
(4) पूँजी बजटिंग में
- 136. LIFO होता है एक तकनीक**
- (1) प्राप्य बिल मूल्यांकन का
(2) इन्वेन्ट्री मूल्यांकन का
(3) सम्पत्ति मूल्यांकन का
(4) उत्पाद मूल्यांकन का
- 137. प्रबन्ध की सार्वभौमिक अवधारणा दिया था**
- (1) टेलर ने
(2) फेयोल ने
(3) टेरी ने
(4) कून्टज ने

- (3) Short term source of finance
(4) Not a source of finance
- 134. Which one is not a source of working capital**
- (1) Bill payable
(2) Public deposit
(3) Overdraft
(4) Hundi
- 135. EOQ is used in**
- (1) Inventory Management
(2) Bill Receivable Management
(3) Cash Management
(4) Capital Budgeting
- 136. LIFO is a technique of**
- (1) Bill Receivable Valuation
(2) Inventory Valuation
(3) Asset Valuation
(4) Product Valuation
- 137. Universality of management concept was given by**
- (1) Taylor
(2) Fayol
(3) Terry
(4) Koontz

138. उद्देश्य द्वारा प्रबन्ध में उद्देश्य स्थिर होता है

- (1) निर्देशकों के लिये
- (2) प्रबन्धकों के लिये
- (3) कार्मिकों के लिये
- (4) सभी के लिये

139. संकेतीकरण एक कदम होता है

- (1) नियोजन का
- (2) नियन्त्रण का
- (3) संचार का
- (4) अभिप्रेरण का

140. आदेश शृंखला एक विधि है

- (1) संचार का
- (2) अभिप्रेरण का
- (3) बजट का
- (4) नियोजन का

141. नेतृत्व सांतत्यक सम्मिलित करता है

- (1) निर्णय का विक्रय
- (2) निर्णय में बदलाव की गुंजाइश होती है
- (3) प्रबन्धक सीमाओं को परिभाषित करता है
- (4) उपरोक्त सभी

142. कथनी शैली क्रिया होती है

- (1) नेतृत्व का
- (2) नियोजन का

138. In MBO objectives are find for

- (1) Directors
- (2) Managers
- (3) Workers
- (4) All

139. Encoding is a step in

- (1) Planning
- (2) Controlling
- (3) Communication
- (4) Motivation

140. Chain of command is a method of

- (1) Communication
- (2) Motivation
- (3) Budgeting
- (4) Planning

141. Leadership as a Continuum includes

- (1) Selling of decision
- (2) There is a scope of change in decision
- (3) Manager defines limits
- (4) All of the above

142. Telling style is a process of

- (1) Leading
- (2) Planning

- (3) नियन्त्रण का
- (4) कहानी सुनाने का

143. कौन-सा सिर्फ व्यय मेल है

- (1) उत्पादन
- (2) विपणन
- (3) शोध व विकास
- (4) उपरोक्त सभी

144. MIS एक तकनीक है

- (1) नियन्त्रण का
- (2) समन्वय का
- (3) नियोजन का
- (4) संगठन का

145. संगठनात्मक व्यवहार में समझने का प्रयत्न किया जाता है

- (1) संगठन के व्यवहार का
- (2) समूह के व्यवहार का
- (3) मानवीय व्यवहार का
- (4) बाह्य लोगों के साथ व्यवहार का

146. सन्तुलन विचारधारा में समूह बनाया जाता है

- (1) स्थानीय कारणों से
- (2) क्रियाओं से
- (3) मनोवृत्ति से
- (4) आदान-प्रदान से

- (3) Controlling
- (4) Story telling

143. Which one is only expense chain

- (1) Production
- (2) Marketing
- (3) Research and Development
- (4) All of the above

144. MIS is a technique of

- (1) Control
- (2) Coordination
- (3) Planning
- (4) Organising

145. Organizational behaviour relates to undertaking the

- (1) Behaviour of the organization
- (2) Behaviour of the group
- (3) Behaviour of human
- (4) Behaviour with outsiders

146. In balance theory a group is formed by

- (1) Local resources
- (2) Activities
- (3) Attitude
- (4) Exchange

147. मानव संसाधन नियोजन क्रिया होती है

- (1) नियुक्तीकरण की
- (2) नियन्त्रण की
- (3) समन्वय की
- (4) उपरोक्त सभी की

148. संवेदनशील प्रशिक्षण प्रक्रिया में होता है

- (1) भूमिका निर्वहन
- (2) अनौपचारिक सम्बन्ध
- (3) संरचित समूह होते हैं
- (4) औपचारिक सम्बन्ध होते हैं

149. मास्लो का आवश्यकता क्रम बद्धता सम्बन्धित है

- (1) नियोजन से
- (2) नियन्त्रण से
- (3) अभिप्रेरण से
- (4) नियुक्ति से

150. स्टाफीय संगठन होता है

- (1) मुख्य कार्यों के लिये
- (2) उत्पादन के लिये
- (3) विपणन के लिये
- (4) विशिष्टीकृत परामर्श के लिये

151. मैट्रिक्स संरचना बनती है

- (1) क्रियात्मक संरचना से
- (2) परियोजना संरचना से
- (3) उपरोक्त दोनों संरचना से

147. Human resource planning is the process of

- (1) Recruitment
- (2) Controlling
- (3) Coordination
- (4) All of the above

148. In sensitivity training process share will be

- (1) Role Playing
- (2) Informal Relation
- (3) Organised Group
- (4) Formal relation

149. Maslow's hierarchy of need relates to

- (1) Planning
- (2) Controlling
- (3) Motivation
- (4) Recruitment

150. Staff organization is for

- (1) Main Activities
- (2) Production
- (3) Marketing
- (4) Specialised advise

151. Matrix structure is made of

- (1) Activity Structure
- (2) Project Structure
- (3) Both Structures mentioned above

(4) उपरोक्त किसी से भी नहीं

152. विकेन्द्रीकरण है

- (1) भारार्पण
- (2) अधिकारों का औपचारिक फैलाव
- (3) उत्तरदायित्व स्थिर करना
- (4) नियन्त्रण क्रिया

153. विभागीकरण के कौन से आधार हैं

- (1) क्षेत्र
- (2) ग्राहक
- (3) उत्पाद
- (4) उपरोक्त सभी

154. संगठन होता है

- (1) संचार प्रणाली
- (2) समस्या निवारण का साधन
- (3) निर्णय सुविधाजनक बनाता है
- (4) उपरोक्त सभी

155. अधिकार सत्ता का भारार्पण एक प्रक्रिया होता है

- (1) नियोजन का
- (2) संगठन का
- (3) समन्वय का
- (4) नियन्त्रण का

156. विज्ञापन होती है एक क्रिया

- (1) विक्रय की

(4) None of the above

152. Decentralization is

- (1) Delegation of authority
- (2) Formal expansion of authority
- (3) Fixing of responsibility
- (4) A process of Control

153. What is/are the basis of departmentation

- (1) Territory
- (2) Customer
- (3) Product
- (4) All of the above

154. Organising is

- (1) A system of Communication
- (2) A Means of Problem solving
- (3) Facilitates decision making
- (4) All of the above

155. Delegation of authority is a process of

- (1) Planning
- (2) Organising
- (3) Coordinating
- (4) Controlling

156. Advertisement is a process of

- (1) Selling

- (2) विपणन की
- (3) वितरण की
- (4) उपरोक्त सभी की

157. एक विक्रेता क्या बेचता है

- (1) उत्पाद
- (2) माल
- (3) सेवा
- (4) सन्तुष्टि

158. उत्पाद सम्मिश्रण होता है एक

- (1) उत्पादन निर्णय
- (2) विपणन निर्णय
- (3) विक्रय निर्णय
- (4) मूल्य निर्धारण निर्णय

159. एक गैर-व्यापारिक संस्था नहीं तैयार करता है

- (1) आय-व्यय खाता
- (2) आगम-शोधन खाता
- (3) लाभ-हानि खाता
- (4) आर्थिक-चिह्न

160. एक गैर-व्यापारिक संस्था में आधार कोष शुल्क होता है

- (2) Marketing
- (3) Distribution
- (4) All of the above

157. What does a seller sells

- (1) Product
- (2) Goods
- (3) Service
- (4) Satisfaction

158. Product mix is a

- (1) Production Decision
- (2) Marketing Decision
- (3) Selling Decision
- (4) Pricing Decision

159. A non profit organization does not prepare

- (1) Income and Expenditure Account
- (2) Receipts and Payments Account
- (3) Profit and Loss Account
- (4) Balance Sheet

160. In a non profit organization endowment receipt is treated as

(1) पूँजीगत प्राप्ति

(2) पूँजी

(3) आयगत प्राप्ति

(4) ऋण

161. एक गैर-व्यापारिक संस्था के वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन कुल सम्पत्ति - दायित्व =

(1) पूँजी

(2) पूँजी कोष

(3) कुल वित्तीय साधन

(4) ऋण

162. भुगतान किया गया किराया + आरम्भिक पूर्वदत्त किराया - अन्तिम पूर्वदत्त किराया + अन्तिम अदत्त किराया - आरम्भिक अदत्त किराया =

(1) समायोजित किराया

(2) वास्तविक भुगतान किया गया किराया

(3) चालू वर्ष का किराया

(4) अदत्त व्यय

163. विपणन का आशय प्रक्रिया को सुविधा प्रदान करना है

(1) Capital Receipt

(2) Capital

(3) Revenue Receipt

(4) Loan

161. In a non profit organization of the opening day of the financial year Total Assets - Liabilities =

(1) Capital

(2) Capital Fund

(3) Total Financial Source

(4) Loan

162. Rent Paid + opening prepaid rent - closing prepaid rent + closing outstanding rent - opening outstanding rent =

(1) Adjusted Rent

(2) Actual rent paid

(3) Rent of the Current Year

(4) Outstanding Expense

163. Marketing is meant to facilitate the process of

- (1) क्रय
- (2) विक्रय
- (3) उपरोक्त दोनों
- (4) उपरोक्त एक भी नहीं

164. बाजार समूह होता है

- (1) क्रेताओं का
- (2) विक्रेताओं का
- (3) दुकानों का
- (4) निर्माताओं का

165. उत्पाद जीवन चक्र का द्वितीय अवस्था होता है

- (1) प्रारम्भ
- (2) वृद्धि
- (3) परिपक्वता
- (4) ढलान

166. उत्पादक - थोकव्यापारी - फुटकरव्यापारी - उपभोक्ता वितरण प्रणाली है

- (1) शून्य स्तर
- (2) एकल स्तर
- (3) द्विस्तरीय
- (4) चतुर्थ स्तरीय

167. भारत में विज्ञापन का सर्वाधिक नया माध्यम है

- (1) Buying
- (2) Selling
- (3) Both above
- (4) None of the above

164. Market is a collection of

- (1) Buyers
- (2) Sellers
- (3) Shops
- (4) Producers

165. The Second phase of PLC is

- (1) Introduction
- (2) Growth
- (3) Maturity
- (4) Decline

166. The Producer – Wholesaler – retailer – Consumer is a channel

- (1) Zero Level
- (2) One Level
- (3) Two Level
- (4) Four Level

167. The most recent media of advertising in

- (1) टेलीविजन
- (2) रेडियो
- (3) इन्टरनेट
- (4) समाचार पत्र

168. स्टॉक में विनियोगकर्ता भुगतान करता है

- (1) अंश आवेदन शुल्क का
- (2) आबंटन मूल्य का
- (3) याचना का
- (4) समस्त राशि का

169. संचयी पूर्वाधिकारी अंश में

- (1) अदत्त लाभांश का संचय होता है
- (2) चालू लाभांश को कोष में जमा किया जाता है
- (3) अंश मूल्य संचय होता है
- (4) लाभ का संचय होता है

170. अंश पर अधिकतम छूट दर हो सकता है

- (1) 8%
- (2) 10%
- (3) 12%

India is

- (1) Television
- (2) Radio
- (3) Internet
- (4) Newspaper

168. In stock investor pay on

- (1) Share Application Amount
- (2) Allotment Amount
- (3) Calls
- (4) Entire Amount

169. In cumulative preference Shares

- (1) Dividend Accumulates
- (2) Current Dividend is transfered reserve to reserve
- (3) Share price accumulates
- (4) Profit accumulates

170. Maximum rate of discount on share can be

- (1) 8%
- (2) 10%
- (3) 12%

(4) 15%

171. अंश निर्गमन पर प्राप्त अंश प्रीमियम को आर्थिक चिह्न में दिखाया जाता है

(1) प्रदत्त पूँजी की तरह

(2) अग्रिम याचना की तरह

(3) अलग से

(4) आर्थिक चिह्न में नहीं दिखाया जाता है

172. अंश पूँजी खाते को माना जाता है

(1) काल्पनिक सम्पत्ति

(2) व्यय

(3) आयगत व्यय

(4) पूँजीगत हानि

173. अंश पर हरण किये गये राशि को हस्तांतरित किया जाता है

(1) लाभ-हानि खाते में

(2) पूँजी खाते में

(3) नकद खाते में

(4) पूँजी संचय में

174. हरण किये गये अंश को पुनर्निर्गम छूट पर किया जा सकता है

(1) 10%

(2) 20%

(4) 15%

171. Premium received on issue of shares is shown in Balance Sheet as

(1) Paid up capital

(2) Calls in advance

(3) Separately

(4) Not shown in balance sheet

172. Share discount is treated as

(1) Fictitious Asset

(2) Expense

(3) Revenue Expense

(4) Capital loss

173. Forfeited Amount in Share is transferred to

(1) Profit and loss account

(2) Capital account

(3) Cash account

(4) Capital Reserve account

174. Forfeited share can be reissued at a discount

(1) 10%

(3) हरण किये गये राशि तक

(4) अंश सममूल्य पर

175. पूर्वाधिकारी अंश का भुगतान किया जा सकता है

(1) पूँजी भुगतान संचय खाता से

(2) नये अंशों के निर्गमन से

(3) उपरोक्त दोनों साधनों से

(4) भुगतान किया ही नहीं जा सकता है

176. सामेलन के पूर्व एवं पश्चात् का लाभ ज्ञात किया जाता है

(1) समयानुसार

(2) विक्रय के अनुसार

(3) कुल लाभ के अनुसार

(4) उपरोक्त सभी आधार पर

177. लाभ के नियोजन सम्बन्धी खाते रखे जाते हैं

(1) एकाकी व्यापारी द्वारा

(2) फर्म द्वारा

(3) कम्पनी द्वारा

(4) सहकारी सोसाइटीज द्वारा

178. कम्पनी के लाभ-हानि खाते में दिखायी जाती है राशि

(2) 20%

(3) To the extent of forfeited amount

(4) Par value of share

175. Preference share can be redeemed from

(1) Capital redemption reserve a/c

(2) Fresh issue of shares

(3) Both above sources

(4) Cannot be redeemed

176. Profit before and after incorporation is ascertained

(1) On time basis

(2) On turnover basis

(3) On gross profit basis

(4) On all above bases

177. Accounts for appropriation of profit is maintained by

(1) Sole trader

(2) Firm

(3) Company

(4) Cooperation Societies

178. Profit and loss account of a Company shows amount of

- (1) चालू वर्ष की
- (2) गत एवं चालू वर्षों की
- (3) गत 3 वर्षों की
- (4) गत 5 वर्षों की

179. अधिकृत पूँजी दिखाया जाता है

- (1) सीमानियम में
- (2) अन्तर्नियम में
- (3) समामेलन प्रमाण पत्र में
- (4) व्यापार आरम्भ करने के प्रमाण पत्र में

180. एक कम्पनी दिखाती है आर्थिक चिह्न में

- (1) अधिकृत पूँजी
- (2) निर्गमित पूँजी
- (3) प्रदत्त पूँजी
- (4) उपरोक्त सभी

181. प्रस्तावित लाभांश

- (1) प्रावधान के रूप में दिखाया जाता है
- (2) वास्तव में चालू वर्ष में भुगतान किया जाता है
- (3) पिछले लाभांश के लिये जोड़ा जाता है
- (4) कहीं भी नहीं दिखाया जाता है

- (1) Current Year
- (2) Previous and Current Years
- (3) 3 Previous Years
- (4) 5 Previous Years

179. Authorised Capital is mentioned in

- (1) Memorandum
- (2) Article
- (3) Certificate of incorporation
- (4) Certificate of commencement of business

180. A company shows in Balance Sheet

- (1) Authorized Capital
- (2) Issued Capital
- (3) Paid up Capital
- (4) All of the above

181. Proposed Dividend is

- (1) Shown as provision
- (2) Actually paid during the current year
- (3) Is added with previous dividend
- (4) Is not shown anywhere

182. कम्पनी आर्थिक चिह्न का प्रारूप दिया होता है

- (1) सीमानियम में
- (2) अन्तर्नियम में
- (3) कम्पनी अधिनियम में
- (4) कहीं नहीं दिया है

183. आर्थिक चिह्न के शेड्यूल में दिखाते हैं

- (1) स्थाई सम्पत्तियों का विवरण
- (2) दायित्वों का विवरण
- (3) चालू सम्पत्तियों का विवरण
- (4) उपरोक्त सभी

184. एक फर्म किस उद्देश्य से चालू खाता खोलती है

- (1) साझेदारों के पूँजी खाता में स्थान पर
- (2) साझेदारों के पूँजी खाते को स्थिर रखने के लिए
- (3) साझेदारों के आहरण को जानने के लिए
- (4) चालू सम्पत्तियों को जानने के लिये

185. फर्म का लाभ एवं हानि कैसे विभाजित होता है

- (1) बराबर
- (2) पूँजी के आधार पर

182. The format of Company Balance Sheet is given in

- (1) Memorandum
- (2) Article
- (3) Company's Act
- (4) Not given anywhere

183. Schedules of Balance Sheet show

- (1) Detail of Fixed Assets
- (2) Detail of Liabilities
- (3) Detail of Current Assets
- (4) All of the above

184. For what purpose current account is maintained by a firm

- (1) In place of partner's Capital A/c
- (2) To keep the partner's Capital A/c fixed
- (3) To know the partner's drawings
- (4) To know the current assets

185. How the profit and loss of a firm is distributed

- (1) Equally
- (2) As per capital

- (3) संविदा में दिये गये अनुपात कि आधार पर
- (4) उपरोक्त किसी एक के आधार पर

186. साझेदारों को वेतन का अधिकार है

- (1) यदि साझेदारी अधिनियम में दिया है
- (2) यदि कम्पनी अधिनियम में दिया है
- (3) यदि साझेदारी संविदा में दिया है
- (4) कभी भी अधिकार नहीं होता है

187. फर्म की ख्याति की गणना होती है

- (1) साझेदारों के प्रवेश के समय
- (2) उस समय जब एक साझेदार फर्म छोड़ता है
- (3) उपरोक्त किसी एक परिस्थिति में
- (4) ख्याति की गणना कभी नहीं होती है

188. एक नया साझेदार पूँजी व ख्याति लाता है

- (1) नकद के रूप में
- (2) सम्पत्ति के रूप में

- (3) Ratio given in deed
- (4) Any one of the above mentioned

186. Partners are eligible for salary

- (1) If provided in Partnership Act
- (2) If provided in Company Act
- (3) If provided in partnership deed
- (4) Are never eligible

187. Goodwill of a firm is calculated

- (1) At the time of entry of partners
- (2) At the time when a partner leaves the firm
- (3) On any one of the above mentioned situation
- (4) Goodwill is not calculated

188. A new partner can bring capital and goodwill in form of

- (1) Cash
- (2) Asset

(3) आंशिक नकद व आंशिक सम्पत्ति के रूप में

(4) उपरोक्त में से किसी एक के रूप में

189. A एवं B एक फर्म में साझेदार हैं एवं लाभ व हानि 3 : 2 में बाँटते हैं। C एक नया साझेदार $\frac{1}{4}$ भाग के लिये फर्म में आता है जो A एवं B से बराबर अनुपात में लेता है तो नया अनुपात होगा

(1) $\frac{1}{4} : \frac{1}{4} : \frac{1}{4}$

(2) $\frac{1}{3} : \frac{1}{3} : \frac{1}{3}$

(3) $\frac{19}{40} : \frac{11}{40} : \frac{1}{4}$

(4) $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} : \frac{1}{4}$

190. यदि ख्याति खाता खोला जाता है तो

(1) इसे सभी साझेदारों को बाँटा जाता है

(2) इसे पुराने साझेदारों में नये अनुपात से बाँटा जाता है

(3) इसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बाँटा जाता है

(4) ख्याति खाता खोला ही नहीं जा सकता है

191. औसत भुगतान तिथि की गणना की जाती है

(1) विभिन्न बिलों द्वारा भुगतान के लिये

(2) आधार क्रय की दशा में

(3) साझेदारों के आहरण की दशा में

(4) उपरोक्त सभी स्थितियों में

(3) Partly cash and partly asset

(4) Any one of the above

189. A and B are partners in a firm share profit and loss in the ratio of 3 : 2. C joins as a new partner for $\frac{1}{4}$ which he takes equally from A and B. The new ratio will be

(1) $\frac{1}{4} : \frac{1}{4} : \frac{1}{4}$

(2) $\frac{1}{3} : \frac{1}{3} : \frac{1}{3}$

(3) $\frac{19}{40} : \frac{11}{40} : \frac{1}{4}$

(4) $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} : \frac{1}{4}$

190. If goodwill account is raised then

(1) This is distributed to all partners

(2) This is distributed to old partners in new ratio

(3) This is distributed to old partners in old ratio

(4) Goodwill account cannot be raised

191. Average due date is calculated for

(1) Payment by various vouchers

(2) Credit Purchase

(3) Partners Drawings

(4) In all above situations

192. कौन-सा स्प्रेड शीट का लाभ नहीं है

- (1) प्रयोग में सरल
- (2) समझना आसान
- (3) आसान गणना
- (4) स्वतः दोहरा प्रविष्टि

193. पहले से पैक लेखांकन साफ्टवेयर

- (1) विशिष्ट व्यापार की विशेषताओं को पूरा नहीं करता है
- (2) सभी कार्य क्षेत्रों को संवृत नहीं करता
- (3) इन्स्टाल करने में आसानी होती है
- (4) उपरोक्त सभी

194. लेखांकन पैकेज का कौन-सा लाभ नहीं है

- (1) इनपुट स्क्रीन को बदला जा सकता है
- (2) पैकेज में नयी MIS रिपोर्ट जोड़ी जा सकती है
- (3) अटैचमेन्ट की तरह बार कोड स्कैनर प्रयोग नहीं किया जा सकता है
- (4) संगठनात्मक ढाँचे के अनुसार प्रणाली को बदला जा सकता है

195. ERP

- (1) रिपोर्ट का मानवीयकरण करता है
- (2) महँगा है
- (3) कम लोचपूर्ण है
- (4) उपरोक्त सभी

192. Which one is not the advantage of spread sheet

- (1) Simple to use
- (2) Easy to understand
- (3) Easy calculation
- (4) Automatic double entry

193. Pre packaged accounting softwares

- (1) Do not cover peculiarities of specific business
- (2) Do not cover all functional areas
- (3) Easy to install
- (4) All of the above

194. Which one is not the advantage of Accountancy Package

- (1) Input screen can be customised
- (2) New MIS reports can be included in the package
- (3) Bar code scanner cannot be used as attachment
- (4) System can be customised as paid organizational structure

195. ERP

- (1) Standardises reporting
- (2) Is expensive
- (3) Is less flexible
- (4) All of the above

196. भूमि क्रय पर हुये कानूनी व्यय को कानूनी व्यय खाते में डेबिट किया गया, यह एक

- (1) छूट जाने वाली गलती है
- (2) सैद्धान्तिक भूल है
- (3) प्रारम्भिक लेखों की भूल है
- (4) भूल नहीं है

197. एक बिल को बैंक में भेजा सकता है

- (1) वसूली के लिये
- (2) भुनाने के लिये
- (3) गिरवी के रूप में
- (4) उपरोक्त सभी

198. यदि एक बेचान किया गया बिल का अनादरण हो जाता है तब बेचान प्राप्तकर्ता को भुगतान करने का दायित्व किसे होता है

- (1) आहर्ता
- (2) आहार्यी
- (3) बेचानकर्ता
- (4) किसी के भी द्वारा

199. निम्न में से कौन-सा प्रत्यक्ष कर है

- (1) व्यापार कर
- (2) आयकर
- (3) विक्रय कर
- (4) उत्पादन शुल्क

196. Legal expenses paid to purchase land is debited in legal expense a/c is an

- (1) Error of Omission
- (2) Error of Principle
- (3) Error of opening records
- (4) Not an error

197. A bill can be sent to a bank

- (1) for collection
- (2) for discounting
- (3) As pledge
- (4) All of the above

198. If an endorsed bill is dishonoured who is liable to pay to endorsee

- (1) Drawer
- (2) Drawee
- (3) Endorser
- (4) By any one

199. Which one of the following is a direct tax

- (1) Trade Tax
- (2) Income Tax
- (3) Sales Tax
- (4) Excise Duties

200. निम्न में से कौन-सा भारतवर्ष में सबसे नया है

- (1) तटकर
- (2) कम्पनी कर
- (3) मूल्य सम्बर्धन कर
- (4) व्यापार कर

200. Which one of the following is the most recent in India

- (1) Custom duty
- (2) Company tax
- (3) VAT
- (4) Trade Tax

www.satishlecturer.com